

# **SURAJ INDUSTRIES LTD**

**Registered Office** -Plot No. 2 Phase-3, Sansarpur Terrace, Distt. Kangra, H.P.-173212

**CIN:** L26943HP1992PLC016791

**Email id-** secretarial@surajindustries.org; **Website-** www.surajindustries.org

**Telephone No:** 01970-256414

---

**May 30 ,2024**

**To,**  
**The Executive Director**  
**BSE Limited**  
**Floor 25, P J Towers**  
**Dalal Street, Mumbai-400001**

**Scrip Code: 526211**

**Subject: Intimation of the publication of Extract of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and financial year ended March 31, 2024.**

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, we enclose herewith the newspaper clipping regarding publication of Extract of Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and financial year ended March 31, 2024 published in the following newspapers:

- 1. The Financial Express (English)**
- 2. Jansatta (Hindi)**

Kindly take note of the same and acknowledge the receipt.

**Thanking You,**  
**Yours Truly,**  
**Suraj Industries Ltd**

**Snehlata Sharma**  
**Company Secretary & Compliance officer**

**Encl: As Above**

**RattanIndia Enterprises Limited**Extract from the Audited Consolidated Financial Results  
for the Quarter and Year Ended March 31, 2024

(Rs. Million)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended			Year ended	
		31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total income from operations	12,942.99	16,534.99	11,057.65	56,096.35	41,237.90
2	Net (loss)/ profit for the period (before tax and exceptional items)	(813.33)	2,129.25	(1,366.07)	5,025.29	(2,733.88)
3	Net (loss)/ profit for the period before tax (after exceptional items)	(813.33)	2,129.25	(1,366.07)	4,525.05	(2,733.88)
4	Net (loss)/ profit for the period after tax (after exceptional items)	(815.06)	1,873.49	(1,380.29)	4,244.54	(2,861.43)
5	Total comprehensive (loss)/ income for the period [Comprising (loss)/ income for the period after tax and other comprehensive income (net of tax)]	(813.09)	1,873.96	(1,375.95)	4,249.13	(2,858.60)
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2 per equity share)	2,764.54	2,764.54	2,764.54	2,764.54	2,764.54
7	Other Equity as shown in the audited balance sheet	-	-	-	5,629.15	1,328.18
8	Earnings per share (EPS) (face value of Rs. 2 per equity share)					
	- Basic (Rs.)	(0.59)*	1.36*	(1.00)*	3.09	(2.06)
	- Diluted (Rs.)	(0.59)*	1.36*	(1.00)*	3.09	(2.06)

**Notes:**

(a) Additional information on standalone financial results is as follows:

(Rs. Million)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended			Year ended	
		31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)
1	Total income from operations	20.07	20.33	8.86	64.21	40.42
2	Net (loss)/ profit for the period before tax	(889.51)	2,143.19	(1,132.54)	5,227.48	(2,800.74)
3	Net (loss)/ profit for the period after tax	(807.38)	1,942.41	(1,132.54)	5,108.83	(2,800.74)
4	Total comprehensive (loss)/ income for the period [Comprising (loss)/ income for the period after tax and other comprehensive income (net of tax)]	(807.88)	1,942.41	(1,132.78)	5,108.19	(2,800.93)

(b) The above is an extract of the detailed format of audited financial results for the quarter and year ended March 31, 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited financial results are available on the company's website <https://www.rattanindia.com> and on the Stock Exchanges website at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com).

Registered Office : 5th Floor, Tower-B, Worldmark 1, Aerocity - New Delhi- 110037  
CIN: L74110DL2010PLC210263

On behalf of the Board of Directors  
For RattanIndia Enterprises Limited

Place: New Delhi  
Date : May 29, 2024

Rajesh Kumar  
Whole Time director

**SURAJ INDUSTRIES LTD**

CIN: L26943HP1992PLC016791  
Regd. Office: Plot No. 2, Phase III, Sansarpur Terrace, Kangra, Himachal Pradesh-173212  
Corporate Office: F-32/3, Second Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020  
Website: [www.surajindustries.org](http://www.surajindustries.org) [secretarial@surajindustries.org](mailto:secretarial@surajindustries.org)

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024 (in Lacs)

S. No.	Particulars	Standalone				Consolidated					
		Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended			
		31.03.2024 (Audited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	31.12.2023 (Unaudited)	31.03.2023 (Audited)	31.03.2024 (Audited)	31.03.2023 (Audited)	
1	Total income from operations (net)	1060.05	1006.77	2844.18	5176.53	6822.45	1063.56	1022.54	2844.18	5218.19	6822.45
2	Profit / (Loss) from ordinary activities (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	16.10	6.36	160.76	218.46	692.38	20.80	60.76	360.94	508.29	956.49
3	Profit / (Loss) before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items and profit of Associate)	16.10	6.36	160.76	218.46	692.38	20.80	60.76	360.94	508.29	956.49
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	19.92	-5.42	88.97	155.06	476.74	23.58	-48.98	289.15	443.85	740.84
5	Total Comprehensive Income for the period	21.97	-5.42	91.63	157.11	479.40	25.63	-48.98	291.81	445.90	743.50
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	1284.59	1284.59	1229.42	1284.59	1229.42	1284.59	1284.59	1229.42	1284.59	1229.42
7	Reserve (excluding Revaluation Reserves)	0	0	0	3088.94	2386.99	0	0	0	3646.05	2651.08
	- Other Equity									2556.98	2561.21
	- Non Controlling Interests										
8	Earnings per share*(Face value of Rs. 10/- Each) Before and After Extraordinary items										
	- Basic	0.16	(0.04)	(0.75)	1.24	4.12	0.18	0.38	2.36	3.54	6.40
	- Diluted	0.16	(0.04)	(0.71)	1.21	3.18	0.18	0.38	2.26	3.46	5.90

**Note:**

- The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of directors at their respective meetings held on May 28, 2024. These financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015 (as amended) (IND AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable. The Statutory Auditors of the Company have conducted an audit of these financial results of the Company for the quarter and year ended March 31, 2024, in accordance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and expressed an unmodified audit opinion on these results.
- The figures for the quarter ended March 31, 2024 are balancing figures between audited figures in respect of full financial year ended March 31, 2024 and the un-audited published year to date figures upto December 31, 2023, being the end of the third quarter of the financial year which were subjected to limited review. The Previous period figures have been regrouped, wherever considered necessary.
- The company has two business segments- a) Liquor Operations, b) Trading Operations. The Segment reporting is being accordingly made.
- Previous years figures have been regrouped/re-arranged, wherever necessary.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly and yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results is available on the Stock Exchange websites [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and Company Website [www.surajindustries.com](http://www.surajindustries.com).

Place : New Delhi  
Date : 28.05.2024

By order of the Board  
For Suraj Industries Ltd  
Sd/-  
Suraj Prakash Gupta  
Managing Director

(This is not an Offer Document. This is a CORRIGENDUM TO PROSPECTUS DATED MAY 24, 2024)

**ASSOCIATED COATERS LIMITED**

Corporate Identification Number: U28129WB2017PLC224001

Our Company was originally incorporated as 'ASSOCIATED COATERS PRIVATE LIMITED' a private limited company under the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies ("ROC"), Kolkata pursuant to Certificate of Incorporation dated December 22, 2017. The name of the company was changed from 'ASSOCIATED COATERS PRIVATE LIMITED' to 'ASSOCIATED COATERS LIMITED', consequent to conversion of our company from private limited company to public limited company, pursuant to Special Resolution passed by the shareholders of our Company in the Extra-ordinary General Meeting held on October 24, 2023, and a fresh certificate of incorporation consequent to change of name was issued by ROC, Kolkata on December 19, 2023. The corporate identification number of our company is U28129WB2017PLC224001. For further details please refer to the chapter titled "History and Certain Corporate Matters" beginning on Page 121 of this Prospectus.

Registered Office: Ashuti Khanberia Maheshstala LP 20/83/46, Kolkata, Vivekanandapur, South 24 Parganas, Thakurpukur Maheshstala, West Bengal, India, 700141.  
Telephone: +91 96304 37701 | Email: [info@associatedcoaters.in](mailto:info@associatedcoaters.in) | Website: [www.associatedcoaters.in](http://www.associatedcoaters.in)  
Contact Person: Heenal Hitesh Rathod, Company Secretary and Compliance Officer

**PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. JAGJIT SINGH DHILLON AND MS. NAVNEET KAUR**

"The Issue is being made in accordance with Chapter IX of the SEBI ICDR Regulations (IPO of Small and Medium Enterprises) and the Equity Shares are proposed to be listed on SME Platform of BSE Limited (BSE SME)."

**THE ISSUE**

**PUBLIC ISSUE OF 4,22,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH ("EQUITY SHARES") OF ASSOCIATED COATERS LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 121 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 111 PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹ 510.62 LAKHS ("THE ISSUE") OF WHICH 66,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 121 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 111 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 79.86 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET ISSUE OF 3,56,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10.00 EACH AT A PRICE OF ₹ 121 PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 111 PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 430.76 LAKHS (THE "NET ISSUE"). THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 31.21 % AND 26.33% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.**

**THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10/- AND THE ISSUE PRICE IS 12.1 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES**

THIS ISSUE IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SECURITIES EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 AS AMENDED ("SEBI (ICDR) REGULATIONS"), IN TERMS OF RULE 19(2)(b)(ii) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED. THIS IS AN ISSUE FOR AT LEAST 25% OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. THIS ISSUE IS A FIXED PRICE ISSUE AND ALLOCATION IN THE NET ISSUE TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253 OF THE SEBI (ICDR) REGULATIONS. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER CHAPTER TITLED "ISSUE PROCEDURE" BEGINNING ON PAGE 193 OF THE PROSPECTUS.

**FIXED PRICE ISSUE AT ₹ 121/- PER EQUITY SHARE**

MINIMUM APPLICATION SIZE OF 1,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1,000 EQUITY SHARES THEREAFTER

**CORRIGENDUM TO THE PROSPECTUS DATED MAY 24, 2024 & THE CORRIGENDUM DATED MAY 29, 2024**

The Corrigendum is with reference to the Prospectus dated May 24, 2024 filed by Associated Coaters Limited in relation to the Issue with Registrar of Companies, Kolkata on May 24, 2024 and submitted with BSE Limited ("BSE") (SME Exchange).

Attention to the Investor is drawn:

- On Page no. 110, under chapter titled "Our Business" the table of "PRODUCT WISE DETAILS" should be read as follows:

**PRODUCT WISE REVENUE**

Name of Product	Year 2021-2022		Year 2022-2023		Up to December 2023	
	Amount (in lakhs)	%	Amount (in lakhs)	%	Amount (in lakhs)	%
Wood Finish Coating	13.73	9.85	32.26	8.99	20.22	5.09
PVDF Coating	-	-	-	-	113.20	28.54
Powder Coating	125.68	90.15	326.69	91.01	263.48	66.37
<b>Total</b>	<b>139.41</b>	<b>100.00</b>	<b>358.94</b>	<b>100.00</b>	<b>397.00</b>	<b>100.00</b>

- On Page no. 113, under chapter titled "Our Business" the table of "REVENUE FROM TOP 5 CUSTOMERS" should be read as follows:

**REVENUE FROM OUR TOP 5 CUSTOMERS**

Name of Product	Year 2021-2022		Year 2022-2023		Up to December 2023	
	Amount (in lakhs)	%	Amount (in lakhs)	%	Amount (in lakhs)	%
Top 1	41.44	29.73	59.50	16.58	157.16	39.59
Top 2	26.32	18.88	91.43	25.47	72.19	18.18
Top 3	26.77	19.20	60.42	16.83	61.28	15.44
Top 4	9.86	7.08	27.82	7.75	12.60	3.17
Top 5	-	-	-	-	9.96	2.51
<b>Sales to top 5 Customers</b>	<b>104.39</b>	<b>74.89%</b>	<b>239.17</b>	<b>66.63%</b>	<b>313.19</b>	<b>78.89%</b>

- On Page no. 113, under chapter titled "Our Business" the table of "PURCHASES FROM OUR TOP 5 SUPPLIERS" should be read as follows:

**PURCHASES FROM OUR TOP 5 SUPPLIERS:**

Particulars	31-03-2022		31-03-2023		31-12-2023	
	Amount (₹ in lakhs)	% of Total Purchase	Amount (₹ in lakhs)	% of Total Purchase	Amount (₹ in lakhs)	% of Total Purchase
Top 1	-	-	-	-	73.85	33.19%
Top 2	29.49	51.77%	70.56	39.29%	59.01	26.52%
Top 3	4.84	8.49%	22.33	12.43%	24.33	10.94%
Top 4	4.94	8.67%	8.21	4.57%	17.75	7.98%
Top 5	6.89	12.10%	5.02	2.79%	9.13	4.10%
<b>Purchases from top 5 suppliers</b>	<b>46.16</b>	<b>81.03%</b>	<b>106.12</b>	<b>59.08%</b>	<b>184.07</b>	<b>82.73%</b>

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
 <b>GRETEX CORPORATE SERVICES LIMITED</b> A-401, Floor 4th, Plot FP-616, (PT), Naman Midtown, Senapati Bapat Marg, Near Indiabulls, Dadar (W), Delisle Road, Delisle Road, Mumbai, Maharashtra, India, 400013. Tel No.: +91 96532 49863 Email: <a href="mailto:info@gretextgroup.com">info@gretextgroup.com</a> Website: <a href="http://www.gretextgroup.com">www.gretextgroup.com</a> Contact Person: Mr. Arvind Haralka SEBI Registration No: INM000012177 CIN: L74999MH2008PLC288128	 <b>BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED</b> Office No. S5-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri East, Mumbai - 400 083, Maharashtra, India Telephone: 022 - 6263 8201 E-mail: <a href="mailto:ipo@bigshareonline.com">ipo@bigshareonline.com</a> Investor Grievance E-mail: <a href="mailto:investor@bigshareonline.com">investor@bigshareonline.com</a> Website: <a href="http://www.bigshareonline.com">www.bigshareonline.com</a> Contact Person: Mr. Vinayak Morbale SEBI Registration Number: INR000001385	 <b>Ms. Heenal Hitesh Rathod,</b> Ashuti Khanberia Maheshstala LP 20/83/46, Kolkata, Vivekanandapur, South 24 Parganas, Thakurpukur Maheshstala, West Bengal, India, 700141 Telephone: +919830437701 Email: <a href="mailto:info@associatedcoaters.in">info@associatedcoaters.in</a> Website: <a href="http://www.associatedcoaters.in">www.associatedcoaters.in</a> Investors can contact the Compliance Officer or the Registrar to the Issue in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, credit of allotted shares in the respective beneficiary account, etc.

Place: West Bengal  
Date: May 30, 2024

Investor should read the Prospectus carefully, including the Risk Factors on page 25 of the Prospectus before making any investment decision.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States and may not be issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U.S. persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), except pursuant to an exemption from, or a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. Accordingly, the Equity Shares will be issued and sold (i) in the United States only to "qualified institutional buyers", as defined in Rule 144A of the Securities Act, and (ii) outside the United States in offshore transactions in reliance on Regulation S under the Securities Act and in compliance with the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be issued or sold, and Application may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

AdBaz

**DEBTS RECOVERY TRIBUNAL, LUCKNOW**

(Area of Jurisdiction - Part of Uttar Pradesh)

600/1, University Road, Near Hanuman Setu Temple, Lucknow-226007

DRC No. 502/2023/R.O. II  
NOTICE UNDER THE RULE (2) SECOND SCHEDULE TO THE INCOME TAX ACT 1961 READ WITH SECTION 29 THE RECOVERY OF DEBTS AND BANKRUPTCY ACT 1983PUNJAB & SIND BANK ..... APPLICANT  
(Bihana Branch, Lucknow U.P.)VERSUS  
MR. LAKHAN SINGH & OTHER ..... DEFENDANTSTo,  
1. Mr. Lakhan Singh S/o Shivnandan Singh.  
2. Smt. Sheelu Singh W/o Lakhan SinghAbove both R/o House No. 2C-77, Raibareilly Road, Vrindavan Colony, Lucknow-226025.  
Above both Second Address R/o House No. 2A-/28, Raibareilly Road, Vrindavan Colony, Lucknow-226025.3. Mr. Akhilesh Tiwari S/o Ram Shankar Tiwari R/o House No. D-161, LDA Colony, Aishbagh Rajendra Nagar, Lucknow-226004.  
.....CREDIT DEBTORS

This is to notify that sum of Rs. 28,02,837.48/- (Rupees Twenty Eight Lac, Two Thousand Eight Hundred Thirty Seven and Paise Fourty Eight Only) in Housing Loan with the interest 8.00% per annum from the date of filing of the Original Application i.e. 15.02.2021 with cost jointly and severally. Till the loan is fully liquidated and cost succeeds and is hereby allowed exported against you the address as per order dated 23.11.2022, passed by Hon'ble Tribunal in O.A. No. 80/2021.

You are hereby directed to pay the aforesaid mentioned amount within 15 days of the notice. Failing which the recovery shall be made in accordance with the Recovery of Debts Due to Bank and financial institution Act, 1993. You are hereby ordered to declare on Affidavit the particulars of Assets on or before 12.09.2024.

You are hereby ordered to appear before the undersigned on 12.09.2024 at 11:00 AM.

In addition to the sum aforesaid you will also liable to pay.

Details of cost	
Application Fees	Rs. 31000.00
Advocate Fees	Rs. NA
Misc. Expenses	Rs. NA
Clerkage	Rs. NA
Publication Charges	Rs. NA

Given under my hand and seal on this 27 day May of 2024.

Recovery Officer-II  
Debts Recovery Tribunal, Lucknow

**GAWAR KHAJWALA BAP HIGHWAY PRIVATE LIMITED**

Regd. Office: DSS-378, SECTOR 16-17,  
Hisar, Haryana-125001  
CIN: U45309HR2018PTC073651  
Tel.: +91-01662-246117  
E-mail: [finance@gawar.in](mailto:finance@gawar.in), website: [www.gkbhpl.in](http://www.gkbhpl.in)

EXTRACT OF THE STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024

SR. NO.	PARTICULARS	Amount in Lakhs except ratios			
		For the Quarter Ended	For the Quarter Ended	For the Year Ended	For the Year Ended
		31-03-2024 (AUDITED)	31-03-2023 (AUDITED)	31-	

## जिंदल फोटो लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : 19वां फ्लोर, इण्डियन-बुल्डिंग्स रोड, पी.ओ. गुलाबवाडी, जिला बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) - 203408  
प्रधान कार्यालय : प्लॉट नंबर 12, सेक्टर बी-1, लोकल सोपिंग कॉम्प्लेक्स, नया कृष्ण, नई दिल्ली - 110070

फोन : 011-40322100, सीआईएन : L33209UP2004PLC005076, ई-मेल : cs\_jphoto@jindalphoto.com, वेबसाइट : www.jindalphoto.com

## 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु पृथक्कृत और समेकित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

पृथक्कृत				समेकित			
तिमाही समाप्त	वर्ष समाप्त	क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त	वर्ष समाप्त	क्र. सं.	विवरण
31.03.24	31.03.24	31.03.24		31.03.24	31.03.24	31.03.24	
लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित		लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	
1,899	16,132	2,032	16,141	1,899	778	2,032	787
1,548	15,978	1,533	15,521	1,547	625	1,533	168
1,548	15,978	1,533	15,521	9,815	5,177	26,555	16,603
1,548	15,994	1,533	15,635	9,815	5,191	26,555	16,716
1,748	16,111	1,731	15,746	9,816	5,310	26,756	18,335
1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026
15.09	155.91	14.95	152.41	93.72	50.60	258.86	162.96

नोट्स :  
1. उपरोक्त परिणाम लेखापरीक्षा समिति द्वारा पुनरीक्षित किए गए थे तथा निदेशक मंडल द्वारा 28 मई, 2024 को आयोजित जनकी संबन्धित बैठक में अनुमोदित किए गए थे। सांख्यिक लेखापरीक्षकों ने अयोग्य लेखापरीक्षा राय व्यक्त की है।  
2. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन दाखिल और अन्य प्रकटीकरण अधिकांश) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में प्रस्तुत किए गए वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप को संश्लिष्ट विवरण है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइट (www.bseindia.com) तथा www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.jindalphoto.com पर भी उपलब्ध है।  
बोर्ड के आदेश द्वारा जारी जिनट फोटो लिमिटेड द्वारा, /-  
मनोज कुमार रस्तोनी  
प्रबंध निदेशक  
सीआईएन : 07585209

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 28 मई, 2024

## MUTHOOT FINCORP LTD. | सोने की नीलामी सूचना

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India-695001.  
CIN : U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427

सभी सम्पद व्यक्तियों की सूचना के लिए एनद्वारा सूचना दी जाती है कि 30.06.2023 & MSGL, SPL-16, One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all other 6 months tenure Gold loans up to 30.09.2023 and MSGB, SME Savana & EMU due up to 31.03.2024 तक की अवधि के लिए कंपनी की नीचे उल्लिखित शाखाओं में सिल्वर सेने के गलत जिनटें छुड़ाने का समय बीत चुका है तथा जिनटें खर-खर सूचना दिए जाने पर भी अब तक छुड़ाना नहीं गया है। उक्त नीलामी 07.06.2024 को 10.00 बजे से शुरू कर दी जाएगी।  
GURGAON DISTRICT - BADSHAHPUR-GURGAON: 436700008, 436700011, 436700012, 436700014, 436700015, 436700025, 436700026, 436700028, 436700036, 436700041, 436700044, 436700048, 436700051, 436700052, 436700056, 436700062, 436700068, 436700074, 436700080, 436700086, 436700092, 436700098, 436700104, 436700110, 436700116, 436700122, 436700128, 436700134, 436700140, 436700146, 436700152, 436700158, 436700164, 436700170, 436700176, 436700182, 436700188, 436700194, 436700200, 436700206, 436700212, 436700218, 436700224, 436700230, 436700236, 436700242, 436700248, 436700254, 436700260, 436700266, 436700272, 436700278, 436700284, 436700290, 436700296, 436700302, 436700308, 436700314, 436700320, 436700326, 436700332, 436700338, 436700344, 436700350, 436700356, 436700362, 436700368, 436700374, 436700380, 436700386, 436700392, 436700398, 436700404, 436700410, 436700416, 436700422, 436700428, 436700434, 436700440, 436700446, 436700452, 436700458, 436700464, 436700470, 436700476, 436700482, 436700488, 436700494, 436700500, 436700506, 436700512, 436700518, 436700524, 436700530, 436700536, 436700542, 436700548, 436700554, 436700560, 436700566, 436700572, 436700578, 436700584, 436700590, 436700596, 436700602, 436700608, 436700614, 436700620, 436700626, 436700632, 436700638, 436700644, 436700650, 436700656, 436700662, 436700668, 436700674, 436700680, 436700686, 436700692, 436700698, 436700704, 436700710, 436700716, 436700722, 436700728, 436700734, 436700740, 436700746, 436700752, 436700758, 436700764, 436700770, 436700776, 436700782, 436700788, 436700794, 436700800, 436700806, 436700812, 436700818, 436700824, 436700830, 436700836, 436700842, 436700848, 436700854, 436700860, 436700866, 436700872, 436700878, 436700884, 436700890, 436700896, 436700902, 436700908, 436700914, 436700920, 436700926, 436700932, 436700938, 436700944, 436700950, 436700956, 436700962, 436700968, 436700974, 436700980, 436700986, 436700992, 436700998, 436701004, 436701010, 436701016, 436701022, 436701028, 436701034, 436701040, 436701046, 436701052, 436701058, 436701064, 436701070, 436701076, 436701082, 436701088, 436701094, 436701100, 436701106, 436701112, 436701118, 436701124, 436701130, 436701136, 436701142, 436701148, 436701154, 436701160, 436701166, 436701172, 436701178, 436701184, 436701190, 436701196, 436701202, 436701208, 436701214, 436701220, 436701226, 436701232, 436701238, 436701244, 436701250, 436701256, 436701262, 436701268, 436701274, 436701280, 436701286, 436701292, 436701298, 436701304, 436701310, 436701316, 436701322, 436701328, 436701334, 436701340, 436701346, 436701352, 436701358, 436701364, 436701370, 436701376, 436701382, 436701388, 436701394, 436701400, 436701406, 436701412, 436701418, 436701424, 436701430, 436701436, 436701442, 436701448, 436701454, 436701460, 436701466, 436701472, 436701478, 436701484, 436701490, 436701496, 436701502, 436701508, 436701514, 436701520, 436701526, 436701532, 436701538, 436701544, 436701550, 436701556, 436701562, 436701568, 436701574, 436701580, 436701586, 436701592, 436701598, 436701604, 436701610, 436701616, 436701622, 436701628, 436701634, 436701640, 436701646, 436701652, 436701658, 436701664, 436701670, 436701676, 436701682, 436701688, 436701694, 436701700, 436701706, 436701712, 436701718, 436701724, 436701730, 436701736, 436701742, 436701748, 436701754, 436701760, 436701766, 436701772, 436701778, 436701784, 436701790, 436701796, 436701802, 436701808, 436701814, 436701820, 436701826, 436701832, 436701838, 436701844, 436701850, 436701856, 436701862, 436701868, 436701874, 436701880, 436701886, 436701892, 436701898, 436701904, 436701910, 436701916, 436701922, 436701928, 436701934, 436701940, 436701946, 436701952, 436701958, 436701964, 436701970, 436701976, 436701982, 436701988, 436701994, 436702000, 436702006, 436702012, 436702018, 436702024, 436702030, 436702036, 436702042, 436702048, 436702054, 436702060, 436702066, 436702072, 436702078, 436702084, 436702090, 436702096, 436702102, 436702108, 436702114, 436702120, 436702126, 436702132, 436702138, 436702144, 436702150, 436702156, 436702162, 436702168, 436702174, 436702180, 436702186, 436702192, 436702198, 436702204, 436702210, 436702216, 436702222, 436702228, 436702234, 436702240, 436702246, 436702252, 436702258, 436702264, 436702270, 436702276, 436702282, 436702288, 436702294, 436702300, 436702306, 436702312, 436702318, 436702324, 436702330, 436702336, 436702342, 436702348, 436702354, 436702360, 436702366, 436702372, 436702378, 436702384, 436702390, 436702396, 436702402, 436702408, 436702414, 436702420, 436702426, 436702432, 436702438, 436702444, 436702450, 436702456, 436702462, 436702468, 436702474, 436702480, 436702486, 436702492, 436702498, 436702504, 436702510, 436702516, 436702522, 436702528, 436702534, 436702540, 436702546, 436702552, 436702558, 436702564, 436702570, 436702576, 436702582, 436702588, 436702594, 436702600, 436702606, 436702612, 436702618, 436702624, 436702630, 436702636, 436702642, 436702648, 436702654, 436702660, 436702666, 436702672, 436702678, 436702684, 436702690, 436702696, 436702702, 436702708, 436702714, 436702720, 436702726, 436702732, 436702738, 436702744, 436702750, 436702756, 436702762, 436702768, 436702774, 436702780, 436702786, 436702792, 436702798, 436702804, 436702810, 436702816, 436702822, 436702828, 436702834, 436702840, 436702846, 436702852, 436702858, 436702864, 436702870, 436702876, 436702882, 436702888, 436702894, 436702900, 436702906, 436702912, 436702918, 436702924, 436702930, 436702936, 436702942, 436702948, 436702954, 436702960, 436702966, 436702972, 436702978, 436702984, 436702990, 436702996, 436703002, 436703008, 436703014, 436703020, 436703026, 436703032, 436703038, 436703044, 436703050, 436703056, 436703062, 436703068, 436703074, 436703080, 436703086, 436703092, 436703098, 436703104, 436703110, 436703116, 436703122, 436703128, 436703134, 436703140, 436703146, 436703152, 436703158, 436703164, 436703170, 436703176, 436703182, 436703188, 436703194, 436703200, 436703206, 436703212, 436703218, 436703224, 436703230, 436703236, 436703242, 436703248, 436703254, 436703260, 436703266, 436703272, 436703278, 436703284, 436703290, 436703296, 436703302, 436703308, 436703314, 436703320, 436703326, 436703332, 436703338, 436703344, 436703350, 436703356, 436703362, 436703368, 436703374, 436703380, 436703386, 436703392, 436703398, 436703404, 436703410, 436703416, 436703422, 436703428, 436703434, 436703440, 436703446, 436703452, 436703458, 436703464, 436703470, 436703476, 436703482, 436703488, 436703494, 436703500, 436703506, 436703512, 436703518, 436703524, 436703530, 436703536, 436703542, 436703548, 436703554, 436703560, 436703566, 436703572, 436703578, 436703584, 436703590, 436703596, 436703602, 436703608, 436703614, 436703620, 436703626, 436703632, 436703638, 436703644, 436703650, 436703656, 436703662, 436703668, 436703674, 436703680, 436703686, 436703692, 436703698, 436703704, 436703710, 436703716, 436703722, 436703728, 436703734, 436703740, 436703746, 436703752, 436703758, 436703764, 436703770, 436703776, 436703782, 436703788, 436703794, 436703800, 436703806, 436703812, 436703818, 436703824, 436703830, 436703836, 436703842, 436703848, 436703854, 436703860, 436703866, 436703872, 436703878, 436703884, 436703890, 436703896, 436703902, 436703908, 436703914, 436703920, 436703926, 436703932, 436703938, 436703944, 436703950, 436703956, 436703962, 436703968, 436703974, 436703980, 436703986, 436703992, 436703998, 436704004, 436704010, 436704016, 436704022, 436704028, 436704034, 436704040, 436704046, 436704052, 436704058, 436704064, 436704070, 436704076, 436704082, 436704088, 436704094, 436704100, 436704106, 436704112, 436704118, 436704124, 436704130, 436704136, 436704142, 436704148, 436704154, 436704160, 436704166, 436704172, 436704178, 436704184, 436704190, 436704196, 436704202, 436704208, 436704214, 436704220, 436704226, 436704232, 436704238, 436704244, 436704250, 436704256, 436704262, 436704268, 436704274, 436704280, 436704286, 436704292, 436704298, 436704304, 436704310, 436704316, 436704322, 436704328, 436704334, 436704340, 436704346, 436704352, 436704358, 436704364, 436704370, 436704376, 436704382, 436704388, 436704394, 436704400, 436704406, 436704412, 436704418, 436704424, 436704430, 436704436, 436704442, 436704448, 436704454, 436704460, 436704466, 436704472, 436704478, 436704484, 436704490, 436704496, 436704502, 436704508, 436704514, 436704520, 436704526, 436704532, 436704538, 436704544, 436704550, 436704556, 436704562, 436704568, 436704574, 436704580, 436704586, 436704592, 436704598, 436704604, 436704610, 436704616, 436704622, 436704628, 436704634, 436704640, 436704646, 436704652, 436704658, 436704664, 436704670, 436704676, 436704682, 436704688, 436704694, 436704700, 436704706, 436704712, 436704718, 436704724, 436704730, 436704736, 436704742, 436704748, 436704754, 436704760, 436704766, 436704772, 436704778, 436704784, 436704790, 436704796, 436704802, 436704808, 436704814, 436704820, 436704826, 436704832, 436704838, 436704844, 436704850, 436704856, 436704862, 436704868, 436704874, 436704880, 436704886, 436704892, 436704898, 436704904, 436704910, 436704916, 436704922, 436704928, 436704934, 436704940, 436704946, 436704952, 436704958, 436704964, 436704970, 436704976, 436704982, 436704988, 436704994, 436704999, 436705004, 436705009, 436705014, 436705019, 436705024, 436705029, 436705034, 436705039, 436705044, 436705049, 436705054, 436705059, 436705064, 436705069, 436705074, 436705079, 436705084, 436705089, 436705094, 436705099, 436705104, 436705109, 436705114, 436705119, 436705124, 436705129, 436705134, 436705139, 436705144, 436705149, 436705154, 436705159, 436705164, 436705169, 436705174, 436705179, 436705184, 436705189, 436705194, 436705199, 436705204, 436705209, 436705214, 436705219, 436705224, 436705229, 436705234, 436705239, 436705244, 436705249, 436705254, 436705259, 436705264, 436705269, 436705274, 436705279, 436705284, 436705289, 436705294, 436705299, 436705304, 436705309, 436705314, 436705319, 436705324, 436705329, 436705334, 436705339, 436705344, 436705349, 436705354, 436705359